

ॐ

चन्द्र राषियों का चलन एवं फलादेश

पाक्षिक 15 दिसंबर 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक

डॉ. शंकर अडवाल



मेष राशि

21 मार्च - 19 अप्रैल

गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोग ठीक हो जाएंगे जैसे रक्तचाप, हृदय और शुगर के मरीज ठीक हो जाएंगे। सेहत को लेकर थोड़ी चिंता रहेगी। इस अवधि में कर्ज देने या लेने से बचें। परिवार के भीतर अनावश्यक सलाह दिसंबर उठती है। रिश्तेदारों के साथ मतभेद होने की संभावना है और शुभ कार्यों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। व्यापार में वृद्धि होगी। भूमि और वाहन के संबंध में लाभ के संकेत हैं। बिल्डरों को लाभ होगा। छात्रों के लिए यह औसत समय है। एकाग्रता अनिर्णायक रहेगी। फोकस होने के कारण आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। इस दौरान शत्रु काफी होंगे। पति-पत्नी के संबंध सामान्य रहेंगे। वाहन सावधानी से चलाएं और यात्रा पर न जाएं। बदनामी से बचें क्योंकि सामाजिक मान-सम्मान को नुकसान होगा। यदि आप किसी की मदद भी करते हैं, तो भी यह सम्मान और पद में किसी भी लाभ में मदद नहीं करेगा। यह विशेष रूप से उच्च मूल्य धातु व्यापार करने वालों के लिए एक अच्छा समय है। राजनेताओं के लिए समय कठिन है, हर कदम और बयान पर सावधान रहें। कोर्ट-कचहरी के मामलों में सफलता मिलने के योग हैं। कार्डों पर फालतू खर्च देखा जा सकता है।



वृष राशि

20 अप्रैल - 20 मई

स्वास्थ्य के लिहाज से समय अनुकूल नहीं है। लेकिन गैस्ट्रिक और पेट की बीमारियों, हृदय की समस्याओं और रक्तचाप से पीड़ित लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। पेट के रोगियों को भोजन करते समय सावधानी बरतने की जरूरत है। पैसों के लिहाज से यह सामान्य समय है। मित्रों और सहकर्मियों के साथ संबंधों की तरह पारिवारिक संबंध और भी खराब रहेंगे। इस अवधि के दौरान व्यापार बेहद कम रहेगा। प्रॉपर्टी कारोबार में

गिरावट देखने को मिलेगी। जहां तक भूमि और वाहन का संबंध है, हानि का संकेत मिलता है। आँटो और मेटल कारोबारियों को नुकसान होगा। अनाज, खुदरा और वातानुकूलन से जुड़े व्यवसाय समृद्ध होंगे। छात्रों के लिए यह फिर से अनुकूल समय नहीं है। पढ़ाई अच्छी होगी लेकिन भविष्य के लिए भ्रम की स्थिति रहेगी, खासकर मेडिकल और अकाउंटेंसी क्षेत्र के लोगों के लिए। विरोधियों परास्त होंगे। दाम्पत्य जीवन थोड़ा अशांत रहेगा; अनियमित व्यवहार से बचने का प्रयास करें। दुर्घटना के संकेत हैं इसलिए वाहन सावधानी से चलाएं। सामाजिक मान-सम्मान और यश में वृद्धि होगी। अदालत में सफलता का संकेत दिया गया है। सरकारी सेवकों को पदोन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। फिजूलखर्ची की संभावना है इसलिए संपत्ति और शेयर बाजार से जुड़े लोगों को सतर्क रहना चाहिए।



मिथुन राशि

21 मई - 20 जून

मिथुन राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के मोर्चे पर अनुकूल समय नहीं है। फेफड़े, हर्निया और हाईड्रोसिल रोगों से पीड़ित लोगों के लिए समय विशेष रूप से खराब है। महिलाओं को ल्यूकोरिया जैसे यौन रोग हो सकते हैं। पाइल्स से पीड़ित लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। डिप्रेशन के मरीजों की हालत और खराब होने की संभावना है। अच्छी तरह से रखने के लिए ध्यान का अभ्यास करें। आर्थिक रूप से समय अच्छा है। पारिवारिक संबंध मजबूत होंगे। मित्रों और सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। परिवार में शुभ कार्य होंगे। भाइयों और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ संबंध मजबूत होंगे और गलतफहमियां दूर होंगी। व्यापार में सुधार होगा और भूमि और वाहन में लाभ कार्ड पर है। ऑनलाइन व्यापार करने वालों के लिए समय विशेष रूप से अच्छा है। छात्रों के लिए समय काफी अवसादग्रस्त है और भ्रम की स्थिति पैदा करेगा। लेकिन जिन लोगों की जन्म कुंडली में चंद्रमा और शनि प्रतिकूल स्थिति में हैं, उनके लिए समस्याएँ खड़ी होंगी। आर्थिक और मानसिक हानि के संकेत हैं। विरोधियों का भय बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन काफी अस्त-व्यस्त रहेगा। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी; तीर्थयात्रा कार्ड पर है। सामाजिक मान-सम्मान में लाभ के संकेत हैं।



कर्क राशि

21 जून - 22 जुलाई

कर्क राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के लिहाज से औसत समय। उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और शुगर दिसंबर से पीड़ित लोगों की हालत खराब है। लेकिन गैस्ट्रिक और अल्सर के रोगियों के लिए समय प्रतिकूल है। गंभीर बीमारियों के मरीजों के लिए 20, 21 और 22 दिसंबर विशेष रूप से खराब है। पारिवारिक संबंध मजबूत होंगे। मित्रों और सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। आर्थिक रूप से समय अच्छा है। आपको वह पैसा मिलेगा जिसे

आपने खोया या अटका हुआ छोड़ दिया था। भाइयों से कोई विवाद हुआ है, तो सुलझ जाएगा। पार्टनरशिप के लिए समय अच्छा है। रिटेल कारोबार से जुड़े लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। माता-पिता से अनबन हो सकती है। माता-पिता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है और उनके खराब स्वास्थ्य से पीड़ित होने की संभावना है। छात्रों के लिए 30 और 31 दिसंबर विशेष रूप से प्रतिकूल है। शेष पखवाड़ा औसत है। परीक्षा में प्रतिशत गिरेगा। मित्रों से हानि होने की संभावना है। पति-पत्नी के बीच संबंध समान रहेंगे। पत्नी हो सकती है भावुक; इसलिए किसी अजनबी की ओर आकर्षित होने से सावधान रहें। यात्रा से बचें। सामाजिक रूप से आपको लाभ होगा। कार्ड पर सम्मान और प्रसिद्धि है। एक औसत अवधि जहां तक नौकरी का संबंध है।



सिंह राशि

२३ जुलाई - २२ अगस्त

स्वास्थ्य के लिहाज से औसत/खराब समय। उच्च रक्तचाप, मधुमेह और हृदय रोगों से पीड़ित लोगों के लिए प्रतिकूल समय है। रक्त की समस्या और एलर्जी से पीड़ित व्यक्तियों के लिए अच्छा समय नहीं है। पारिवारिक वातावरण सौहार्दपूर्ण रहेगा। परिवार में शुभ कार्य संपन्न होंगे। मित्रों और सहकर्मियों से अनबन होने की स्थिति में उनका समाधान किया जाएगा। भाइयों से संबंध प्रगाढ़ होंगे। व्यवसाय में कठिन समय का संकेत दिया गया है, खासकर संपत्ति व्यवसाय और बिल्डरों के लिए। कुछ रुकावटें आ सकती हैं लेकिन धैर्य बनाए रखें। माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। छात्रों के लिए यह एक अनुकूल अवधि है, खासकर तकनीकी क्षेत्र के लोगों के लिए। घर में बच्चों से लड़ाई-झगड़ा करने से बचें। गर्भवती महिलाओं के लिए परेशानी भरा समय है। पति-पत्नी के बीच संबंध अच्छे और प्यारे रहेंगे। उलझनों से सावधान रहें। यह सामाजिक प्रसिद्धि और सम्मान पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। व्यापार में कार्ड पर अच्छा लाभ है। लेकिन सरकारी नौकरी करने वालों को प्रमोशन मिलने में दिक्कत होगी। कार्यस्थल पर अनावश्यक विवाद होगा। इस दौरान फालतू खर्च के भी संकेत हैं।



कन्या राशि

23 अगस्त - 22 सितंबर

मानसिक स्वास्थ्य के मोर्चे पर औसत समय। उच्च रक्तचाप, शुगर और हृदय रोग से पीड़ित गंभीर रोगी स्वास्थ्य के मोर्चे पर सावधान रहें, अच्छी देखभाल करें और वे बेहतर महसूस करेंगे। पेट के रोगियों को खान-पान में सावधानी बरतनी चाहिए। आर्थिक रूप से, यह एक औसत समय है। आप आवश्यकता से अधिक खर्च करेंगे। परिवार के सदस्यों के साथ अनावश्यक विवाद होने की संभावना है। मित्रों और सहकर्मियों के साथ परिवर्तन के संकेत हैं। शुभ कार्यों में रुकावट आएगी। जमीन, वाहन और संपत्ति से सुख सामान्य रहेगा। प्रॉपर्टी

का कारोबार औसत रहेगा। शेष कार्य बाधित रहेंगे। माता-पिता का स्वास्थ्य खराब रहेगा। छात्रों के लिए पढ़ाई, ध्यान और फोकस करने के लिए यह बेहतरीन समय है। पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी और परीक्षाओं में सफलता का योग है। नौकरी के अवसर बने रहेंगे। शत्रुओं का भय कम होगा। नवविवाहित जीवन प्रेम से भरा रहेगा। दूसरों के प्रति आकर्षण भी बढ़ेगा, इसलिए सावधान रहें। कार्ड पर तीर्थयात्रा है। विशेषकर अनाज और खुदरा व्यापार से जुड़े लोगों के लिए व्यापार में वृद्धि होगी। सरकारी नौकरी करने वालों को प्रमोशन मिल सकता है।



तुला राशि

23 सितंबर - 22 अक्टूबर

तुला राशि वालों, सेहत के लिहाज से थोड़ा बेहतर समय आने वाला है। जिन लोगों को स्वास्थ्य संबंधी छोटी समस्याएं हैं, वे ठीक होने की अवस्था में होंगे। गंभीर बीमारियों का इलाज होगा। उच्च रक्तचाप, मधुमेह और हृदय रोगियों में सुधार होगा। दांतों के मरीजों को परेशानी हो रही है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम अच्छा रहेगा और शारीरिक शक्ति में वृद्धि होगी। जिन लोगों की कुंडली में शनि और चंद्रमा दुखद स्थान पर होते हैं, उन्हें मानसिक तनाव और आर्थिक नुकसान के साथ-साथ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आर्थिक रूप से यह एक अच्छा समय है। पारिवारिक संबंध सामान्य रहेंगे। अनावश्यक विवाद होने की संभावना है। दूसरों को कर्ज देने के लिए समय अच्छा नहीं है। माता के पक्ष में परिवार के साथ संबंध प्रेम से भरे रहेंगे। एक अच्छा समय है, आप दिसंबर में जमीन के सौदे से पैसे फंसेंगे। संपत्ति का कारोबार सुस्त रहेगा जैसा कि शेयर बाजार के लोगों के लिए होगा। छात्रों के लिए, यह औसत समय है, ध्यान केंद्रित करें, ध्यान करें। वे विचलित होंगे और मानसिक शांति मायावी होगी। कार्यों में रुकावट आएगी। दांपत्य जीवन भी औसत रहेगा। पार्टनर का स्वास्थ्य खराब हो सकता है और अनावश्यक विवादों में पड़ने की संभावना है। यात्रा से बचें। आप सामाजिक सम्मान में लाभ प्राप्त करेंगे; गर्व न करने का प्रयास करें।



वृश्चिक राशि

22 नवंबर - 21 दिसंबर

मानसिक रूप से मजबूत लोगों के लिए स्वास्थ्य के मोर्चे पर समय अनुकूल है। लेकिन चिंता के साथ उच्च रक्तचाप, मधुमेह और अवसाद से पीड़ित लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। आपसी संबंध मैत्रीपूर्ण रहेंगे। लेकिन साझेदारी में कठोरता की उम्मीद है, इसलिए सतर्क रहें। आर्थिक रूप से औसत समय। पैसों के लेन-देन से बचें। परिवार के सदस्यों के साथ संबंध मजबूत होंगे। बहनों को भाइयों से भरपूर प्यार और आर्थिक मदद मिलेगी। जमीन और वाहन को लेकर सामान्य खुशी कार्ड पर है। बिजली, अनाज, कागज और सर्राफा से जुड़े

कारोबारियों को लाभ होगा। प्रॉपर्टी का कारोबार सुस्त रहेगा। 27, 28 और 29 दिसंबर को निवेश न करें। छात्रों के लिए औसत समय। मानसिक व्याकुलता रहेगी और पढ़ाई में रुचि का नुकसान होगा। बैच के साथियों से सावधान रहें क्योंकि आपसी असहमति और संघर्ष की संभावना है। माता-पिता अपने छोटे बच्चों को लेकर थोड़े चिंतित रहेंगे, वे दिसंबर जिद्दी हैं, उनमें अतिरिक्त प्रयास करें। गर्भवती महिलाओं को परिवार और उनके पार्टनर का अतिरिक्त ध्यान आता है। पति-पत्नी के बीच संबंध सामान्य रहेंगे। कैंसर के मरीजों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। सामाजिक कार्य करने का मौका मिलेगा। आपको सामाजिक सम्मान और प्रतिष्ठा में लाभ होगा। गलतफहमी से बचें। पत्नी को यौन रोग होने की संभावना है।



धनु राशि

22 नवंबर - 21 दिसंबर

धनु राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के लिहाज से औसत समय। ब्लड प्रेशर, शुगर और दिल के मरीजों को सावधान रहने की जरूरत है। दांतों की समस्या यदि कोई हो तो बढ़ जाएगी। दूसरों को स्वास्थ्य के मोर्चे पर कोई समस्या नहीं होगी। आर्थिक रूप से, यह एक औसत समय है। पुराने विवाद सुलझेंगे। परिवार में अनुकूल कार्य होंगे। मित्रों और सहकर्मियों के साथ संबंधों का समर्थन किया जाएगा। लंबे समय से अटका हुआ धन या कोई संपत्ति विवाद सुलझेगा। भूमि, वाहन सुख सामान्य रहेगा। भाइयों के साथ संबंधों का स्वागत होगा। शनि मुश्किलें बढ़ा सकता है लेकिन चिंता न करें, ये अस्थायी हैं। छात्रों के लिए यह एक औसत और अवसादग्रस्त समय है, ध्यान महत्वपूर्ण है। माता-पिता संतान को लेकर थोड़े चिंतित रहेंगे। कार्ड पर कोई बड़ी सफलता नहीं है। विरोधियों का भय रहेगा। दाम्पत्य जीवन एक समान उलटफेर पर रहेगा; कार्ड पर कोई बड़ा लाभ या हानि नहीं है। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी।



मकर राशि

22 दिसंबर - 19 जनवरी

स्वास्थ्य की दृष्टि से उन लोगों के लिए अनुकूल समय नहीं है जिनकी कुंडली में चंद्रमा और शनि अशुभ स्थान पर हैं। गंभीर रोगियों के लिए भी समय प्रतिकूल है। दूसरों के लिए, किसी भी स्वास्थ्य समस्या के मामले में उनकी स्थिति में सुधार होगा। आर्थिक रूप से, यह एक औसत समय है। शनि की साढ़ेसाती जातक को फिजूलखर्ची की ओर धकेलेगी। ऐसी समस्याएं केवल उन लोगों के लिए उत्पन्न होंगी जिनकी कुंडली में चंद्रमा और शनि अनुकूल स्थान पर नहीं हैं। पारिवारिक झगड़े और दोस्तों और सहकर्मियों के साथ संघर्ष जैसी समस्याएं काम को परेशान करेंगी। भूमि और वाहन आराम सामान्य है। प्रॉपर्टी के कारोबार में लाभ कम होगा।

अपनों से अनबन होने के योग हैं। विद्यार्थियों के लिए भी समय औसत है, मेहनत के अनुरूप सफलता नहीं मिलेगी। परीक्षा में प्रतिशत गिरेगा, इसलिए धैर्य बनाए रखें। माता-पिता को बच्चों की चिंता होगी; बच्चे का व्यवहार माता-पिता को परेशान करेगा, उन्हें सहज बनाने के लिए अच्छा समय दें। राजनेताओं को दिसंबर में मान सम्मान की हानि होती है। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा और युगल के बीच प्रेम बढ़ेगा। गर्भवती महिलाओं को परेशानी का सामना करना पड़ेगा, जल्द ही स्थिति में सुधार होगा। नौकरी में प्रमोशन में देरी होने की संभावना है। सामाजिक मान-प्रतिष्ठा और प्रतिष्ठा में कोई हानि नहीं होगी। बाधाओं के बावजूद आपके काम पूरे होंगे।



कुम्भ राशि

20 जनवरी -18 फरवरी

कुंभ राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य के मोर्चे पर समय अच्छा नहीं है, हृदय रोग के रोगियों के लिए समय विशेष रूप से खराब है। इसलिए हृदय रोगियों को लकवा का दौरा पड़ सकता है। कुंभ राशि के जातकों के लिए पेट के रोग स्वस्थ रहने की संभावना है। आर्थिक रूप से औसत समय। पारिवारिक संबंधों में कष्ट हो सकता है। पड़ोसियों से मनमुटाव देखने को मिल सकता है, संभलकर रहें वरना दिसंबर बिगड़ जाएगा। वरिष्ठों से अनावश्यक अनबन भी हो सकती है। शुभ कार्यों में रुकावट आएगी।

जमीन या वाहन के संबंध में नुकसान होने के योग हैं। 16, 17, 18 दिसंबर को जमीन और वाहन का सौदा और खरीद-बिक्री न करें। इन तारीखों को कर्ज देने या लेने से बचें। विद्यार्थियों को कष्ट का सामना करना पड़ेगा। बेवजह के विचार मानसिक तनाव बढ़ाएंगे, करें मेडिटेशन। इसलिए धैर्य के साथ पढ़ाई करें। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा; पति-पत्नी करीब आएंगे और उलझनें दूर होंगी। . लेकिन अपने करीबी लोगों से आपको अनादर का सामना करना पड़ेगा। आप सामाजिक स्थिति में लाभ प्राप्त करेंगे; मान-सम्मान में वृद्धि होगी।



मीन राशि

19 फरवरी - 20 मार्च

मीन राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के लिहाज से अनुकूल समय है। गंभीर मरीज ज्यादा ध्यान रखते हैं वरना आपको दिसंबर में नुकसान उठाना पड़ेगा। पाचन और अल्सर जैसी पेट की बीमारियों से परेशान लोगों के लिए समय थोड़ा प्रतिकूल रहेगा। उच्च रक्तचाप, मधुमेह और हृदय रोगों से पीड़ित लोगों में भी सुधार देखने को मिलेगा। परिवार में सद्भाव और संतोष का राज होगा। रिश्तेदार, दोस्त और सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा।

आपसी मतभेद सुलझेंगे। व्यवसायों में विवाद दिखाए जाते हैं। आर्थिक रूप से, यह एक अच्छा समय नहीं है, हालांकि कई बार फालतू खर्च होगा और भुगतान अटक सकता है।

जमीन, वाहन और संपत्ति के कारोबार के लिए समय अच्छा है। माता-पिता प्यार से भरे रहेंगे और उनके व्यवहार से खुशी मिलेगी। माता-पिता के साथ कोई मतभेद, यदि कोई हो, सुलझ जाएगा। नौकरी के अवसर खुद को पेश करेंगे। पार्टनर को लेकर किसी भी तरह का संदेह न करें। दांपत्य जीवन में भी उतार-चढ़ाव रहेगा। बेवजह की अनबन भी हो सकती है। सामाजिक मान-सम्मान और प्रतिष्ठा में लाभ होगा। राजनेताओं, सार्वजनिक बयान देते समय अपनी सामाजिक स्थिति के बारे में सावधान रहें क्योंकि आपका आत्मविश्वास अधिक है जो दिसंबर में गलत विवादास्पद बयानों को जन्म देता है।